



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1936 (श0)
(सं0 पटना 1048) पटना, शुक्रवार, 19 दिसम्बर 2014

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2014

सं0 ए/विविध(53)-78/2012-12031—एस0आर0ई0 से आच्छादित बिहार के 22 जिलों में नक्सली कैंडर द्वारा बच्चों की भर्ती की रोकथाम के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का गठन निम्न प्रकार किया जाता है :-

| | | | |
|-------|---|---|------------|
| (i) | जिला पदाधिकारी | — | अध्यक्ष |
| (ii) | सदर अनुमण्डल के एस0डी0पी0ओ0 | — | सदस्य सचिव |
| (iii) | वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक | — | सदस्य |
| (iv) | अपर जिला दण्डाधिकारी | — | सदस्य |
| (v) | समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (vi) | सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी | — | सदस्य |

(2) जिला में कार्यरत प्रमुख स्वयंसेवी संस्थानों को भी इस सेल में शामिल करने हेतु चयन जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से विमर्श कर किया जाएगा।

(3) यह सेल दो महीने के अंतराल पर एक बैठक आयोजित कर नक्सलियों द्वारा अपने कांडर में बच्चों को भर्ती करने संबंधी प्राप्त सूचना की समीक्षा करते हुए इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न करेगा। ऐसे बच्चों की गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण के

बाद उनके पुनर्वास संबंधी कार्रवाई इस सेल द्वारा की जाएगी। आम लोगों के बीच नक्सली तत्वों द्वारा बच्चों को अपने कांडर में भर्ती करने के विरुद्ध जागरूकता के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा

(4) यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० परेश सक्सेना,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1048-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>